



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1936 (श0)

(सं0 पटना 683) पटना, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2014

सं0 अ0सं0क0-14-07/2007—1653

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

14 अगस्त 2014

विषय:-	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15- सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन समीक्षा एवं प्रतिवेदन भेजने हेतु राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन ।		
प्रस्तावना:-	अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय एवं समानता प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नया 15-सूत्री कार्यक्रम घोषित है । इस कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन भेजने हेतु सरकार के दिशा निदेश के आलोक में एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जाना है ।		
संकल्प:-	राज्य सरकार द्वारा 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-		
(1)	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
(2)	15-सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजना लागू करने वाले विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
(3)	पंचायती राज संस्थाओं/स्वशासी जिला कॉन्सिल के प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनित)	-	सदस्य
(4)	अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा मनोनित)	-	सदस्य
(5)	तीन अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे (राज्य सरकार द्वारा मनोनित)	-	सदस्य
(6)	दो लोकसभा सदस्य(जिसमें एक Minority Concentration District के हेतु तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राज्यसभा सदस्य (केन्द्र सरकार के द्वारा मनोनित किये जायेंगे)	-	सदस्य

- (7) दो विधान-सभा सदस्य (जिसमें एक Minority Concentration District के होंगे राज्य सरकार द्वारा मनोनित किये जायेंगे) ।
2. समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होगी तथा वो केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन भेजेगी ।
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 683-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>